

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- अक्टूबर 30, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***141 वाहनों का चालान , 19 वाहनों से कुल 18000/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 18*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 71 व्यक्तियों से 7100/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.अमरेश साहनी पुत्र करिया नि0 नौनिया थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-198/20 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2. सोमई चौहान पुत्र दुखहस नि0 एकमा थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती के कब्जे से 10 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-199/20 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त पतिराज प्रजापति पुत्र स्व0 काशी नि0 चन्दनपुर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-243/20 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता कमलावती पत्नी ईश्वर नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 225/20 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

कस्टम एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण मुकेश पासी पुत्र खदेरु नि0 परसहवा थाना ममगांवा जनपद रुपनदेही नेपाल राष्ट्र आदि 16 नफर के कब्जे से 18 बोरी यूरिया खाद, 50 किलोग्राम मटर, 380 पैकेट सिगरेट व 14 अदद साइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0-निल/20, धारा- 11 कस्टम अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अज्ञात के कब्जे से 02 बोरी डीएपी खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0-निल/20, धारा- 10 कस्टम अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल-14*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 29/30-10-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 23 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।